



25th May, 2024

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E)

Mumbai- 400 051

NSE Symbol: HAVELLS

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400 001

Scrip Code: 517354

Sub: Newspaper Clippings - Economic Times & Jansatta

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 25th May, 2024 where a Public Notice has been published by way of an advertisement by the Company in compliance of MCA Circular No. 20/2020 dtd 5th May, 2020, before sending the Notice of the ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled.

Please note that the next AGM of the Company has been scheduled to be held on 28th day of June, 2024 through VC (Video Conferencing)/ OAVM (Other Audio Visual Means).

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully, for Havells India Limited

(Sanjay Kumar Gupta) Company Secretary

Encl: As above













India a Big Market; Looking to

India will be a big natural home for Canva.

You have a popular free product;

opportunities in India?

what about the revenue generating

India is one of our significant sales

growing and they need internet tools

and the best products ... India needs

significant long-term investments

and we want to ensure that every-

one is able to use the product for

free and derive great value out of

that. We want to create affordable

points, and I am 100% confident that

will serve us well in India.

Indian users?

You have recently acquired

design software Affinity;

will it be released to your

Affinity is one of the

fastest professional

grade software in the

market and we are

Are you looking to

excited to bring

that to India.

products that solve strong pain

the combination of free and paid

countries. These countries are

focus market for

the \$26 billion

Sydney-based design software solu-

tions startup Canva, cofounder and

chief executive Melanie Perkins told

ET. With annual revenue of \$2.3 bil-

lion, Canva competes with the likes of

Adobe and Figma. Perkins said the co-

mpany is looking to build a local team

in India, which has emerged as its fifth

Speaking to ET's Pratik Bhakta on the

sidelines of Canva Create, the compa-

ny's annual event in Los Angeles, Per-

kins said she believes that the growing

creator economy in India will open up

a massive business opportunity

for the firm there. Excerpts:

What is Canva's plan for

creating photography,

tion for us. It is the fifth

growing. There is a big

culture in India and it is

among our fastest

visual and creative

largest market for us and

We want to have creators

content with local informa-

India?

largest market with 240,000 users.

Build a Local Team: Canva CEO

investing in setting up training materi-

als, workshops to manage the require-

How will you compete with large

The ecosystem needs to be interoper-

should be able to upload doc files into

people using the 'presentation' feature

every month. Visual communications

organisation and with Canva they can

Artificial intelligence is at the centre

of your product. How are you look-

have become very critical for every

take it to their entire workforce.

ing at the evolving regulatory

Al needs to be representative

keeping in mind the safety aspects.

On the other side we want to ensure

that our community has access to AI

understand how to be more effective.

NTPC Standalone

in their learning, jobs so they can

(The reporter was in Los Angeles on an

landscape around AI?

invitation from Canva)

enterprise-focussed design firms

like Adobe or tech majors like

able with products and tools. We

Canva, which now has 50 million

Google and Microsoft?

ments of large enterprises who will

have their own specialised needs.

set up a team and office in India?

sical presence yet. How we work is

that we have large offices in eight

offices. As the need arises, we pro-

gress in terms of our physical pres-

MELANIE PERKINS

We want to create affor-

strong pain points, and I

am confident that the co-

mbination of free & paid

will serve us well in India

ence. The same strategy will be

You are now entering the enter-

prise sector. How will that change

Canva has not been driven by sales

million people become our salespeo-

ple. The company is investing heavily

teams; it is more of a product-led

company. Our community of 185

to ensure that all the needs of en-

terprises are being met ... We are

applied to India.

your strategy?

dable products that solve

locations and some hubs and satellite

We have employees in India and are

hiring more but we do not have a phy-

IIM-B to Start **Online Programme** in Digital Business, **Entrepreneurship**

Our Bureau

Bengaluru: Indian Institute of Management Bangalore launching an online programme for a Bachelor of Business Administration (BBA) degree in digital business and entrepreneurship.

The three-year undergraduate programme will be rolled out in September with a targeted take of 1,000. It will have internship opportunities and practical projects built in. It will allow students to take up another undergraduate programme alongside it as there will be a six-year window to complete the course.

"India is becoming a prominent digital economy, with a lot of youngsters with skill and talent that we need to find opportunities



with a targ-

eted take of

for," Rishikesha T Krishnan, director IIM-Bangalore told ET. "We think this programme can be a game-changer because it combines quality, skills and the orientation that youngsters need for the digital economy."

There is an urgent

1,000 requirement build more professionals who understand digital business, said Krishnan. "The programme is targeting two outcomes: one is creating such entrepreneurs; the other, creating professionals who can contribute to digital businesses or make traditional/brick-and-mortar businesses digital-ready," he said.

The institute chose online, keeping in mind the constraints by way of classrooms/infrastructure, etc., that may come in the way of a physical format.

"We can't make an impact unless we make this much more accessible. That's why we chose online to deliver world-class quality to a large number of learners who will be taught about digital technology and business, entrepreneurship and management," the IIMB director said. The programme will also facilitate student networking opportunities through collaborative projects.

India likely to Outpace Nutanix's Global **Growth Metrics: CEO**

Company to continue hiring as a huge chunk of innovation happens in India: Rajiv Ramaswami

Dia.Rekhi@timesgroup.com

Barcelona: Hybrid multicloud computing player Nutanix sees its India growth rate outpacing its projected global metrics for Annual Recurring Revenue (ARR) and profitability, CEO Rajiv Ramaswami told ET in an exclusive interaction on the sidelines of the company's annual .NEXT conference being held here.

"In September, we provided a three-year roadmap where we said we would be growing our Annual Recurring Revenue 20% plus by our fiscal year 2027," he explained. "We said that we would also be increasing our cash flow generation to \$700-900 million by that period. I expect India as a country to grow faster than that growth rate."

Ramaswami went on to add that a "huge chunk" of Nutanix's innovation happens in India for which he said the company would continue to hire people for both their Bengaluru and Pune operations. He said that the entire company has around 7000 people of which a good portion of developers are based in India.

that is growing very fast, in line with the trend over the last few years, he said.

hyper-converged infrastructure space for a long time (in India)," he said. "We now have customers also extending us to the public cloud. We have many customers in India running modern applications, Kubernetes applications on our platform already."

Kubernetes, also known as K8s, is an open-source system for auto- innovation - not just in payments mating deployment, scaling, and but also when it comes to things management of containerized ap- like data centre infrastructure, plications. It can efficiently scale how they are adopting Kubernetes environments from one cloud pro- and cloud native technologies - at a vider to another – and even from on-premises to cloud - without functional or performance losses. Kubernetes, Ramaswami said AI



RAJIV RAMASWAMI

Al adoption is still very early for most Indian customers, but India has the talent base of software developers

adoption is still very early for most Indian customers, but he said India's talent base for software developers gives the country an edge.

"What we find among many Indian customers, especially private, is that they have more resources they companies actually have the wherewithal to go pretty quickly and go build their own applications with "We've also been a leader in the the educated workforce that they have with software talent.

In fact, Manosiz Bhattacharyya, Chief Technology Officer at Nutanix, said the company has taken stories from Indian banks and showcased them to European or American banks on interesting

He said Indian banks are leading pace and rate that is higher than those in Europe or America.

(The reporter is at the .NEXT 2024 Despite being early adopters of event in Barcelona at the invitation of Nutanix)

15-20% of Cars Sold Self-funded can deploy from a software develop-The company has been in the ment perspective, which is needed country for sometime now and it is if they want to transform themone of its most successful markets selves," he said. "I find that Indian

>> From Page 1

▶▶ From Page 1

tion costs.

ET Q&A

This happened despite a surge in digital payments through Unified Payments Interface (UPI) to₹19.64 lakh crore at the end of April this year from₹2,425 crore in March 2017, as per the latest National Payments Corporation of India data.

The Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) estimates that 15-20% of cars sold in India are self-funded. Even in the case

Local authorities are hoping to at-

tract more Indian filmmakers this

year through discounted produc-

"We are now like the front office

or supermarket of any services for

filmmakers, as we are trying to cut

their production expenses as much

as possible by offering a low price

to shoot here," said Evgeny Kozlov,

first deputy head of the office of

the mayor and the government of

Upcoming Tamil action film 'The

Greatest of All Time' last month

became the first foreign film to be

shot as part of the 'Moscow-City of

Cinema' programme that provides

"I hope we will see several Bolly-

wood projects from India being

shot this year in Moscow," Kozlov

subsidies to filmmakers.

Hollywood's Absence

ance amount through an account payee cheque or bank draft or electronic clearing system through a bank account, net banking, debit cards or any other electronic

Mercedes-Benz India, cash and selffunded purchases in Mumbai and Bengaluru have a higher share of 25% than 15% in the other markets in the country. "Almost 20% of the customers opt for an all-cash purchase," said Santosh Iyer, managof luxury vehicles, a fifth of sales ing director, Mercedes Benz India. happen through direct payment A car dealer in Delhi said on condiwith buyers paying ₹2 lakh upfront tion of anonymity that he was at his in cash. Customers can pay the bal- wits' end when a buyer wanted to

purchase a super luxury car with full cash.

Manish Raj Singhania, president at FADA, said there are many customers who do not want to avail financing options, do not want to pay interest and would rather pay through their savings at one go. "There are others who do not have For German luxury carmaker the necessary documents like income tax returns to avail of a bank loan or have not been deemed credit-worthy. And these buyers are there, not only in rural but also in

counts)," he said.

Q4 PAT Falls 2% to ₹5,556.4 crore **Our Bureau** New Delhi: NTPC Ltd's standalone net profit for the quarter to March fell about 2% year-on-year to ₹5,556.4 urban markets. In all these cases, crore. Standalone revenue customers make payment with from operations increased cash for up to ₹2 lakh (as per govern-3% to₹42,532 crore. ment regulations), cheques and However, total expenses of RTGS (real-time gross settlement the state-owned company infunds transfer between bank accreased about 3.4% to ₹37,413

crore. Gross electricity generation by the company increased about 4.2% year-on-year to 93.4 billion units. Plant load factor of coalbased power plants was al-

most 79.8% during the quarter, marginally lower than a year ago. Average tariff in 2023-24

was ₹4.61 per unit, lower than ₹4.89 per unit in the previous financial year. Standalone capacity of the power generator was 59,078 MW as on March 31 compared with 56,368 a year ago.

CONSOLIDATED EARNINGS The power producer's con-

solidated profit after tax, including those of group companies, increased by a third to ₹6,490 crore. Consolidated revenue was up 7.6% year-on-year to ₹47,622 crore.

NTPC's consolidated total installed capacity stood at 75,958 MW as of March-end, compared with 72,254 MW a year ago.

APPOINTMENT COMES AMID A SLEW OF HIGH-LEVEL SHIFTS IN FLIPKART

Prathyusha Agarwal to Head Shopsy

Our Bureau

Bengaluru: Shopsy, Flipkart's lowpriced ecommerce rival to Meesho and Amazon Bazaar among others, appoint-

ed Prathyusha Agarwal as its head. Agarwal will also assume the role of vice president at parent Flipkart, a spokesperson for the firm told ET. She was previously chief business officer at edtechfirm Byju's besides stints at Zee Entertainment, Tata Cliq and Unilever, according to her LinkedIn profile. Agarwal's appointment was first reported by

Shopsy was earlier headed by senior vice president Adarsh Menon, who also led the ReCommerce division and other new businesses. Last October, Menon left Flipkart to join car rental firm Zoomcar as global president.

The appointment comes amid a slew of high-level shifts in Flipkart. ET reported on May 20 that the firm had roped in Anuj Rathi as CEO of its travel booking unit Cleartrip, after former CEO Ayyappan R and former CFO Aditva Agarwal left.

Senior vice-president of customer others.

growth and retention, marketing and ads Prabh Simran Singh, and vice president (VP) of monetisation Sankalp Mehrotra are also set to leave the firm. Other SVPs including Amitesh Jha, who led marketplace and categories, fintech and payments head Dheeraj A, and Bharath Ram, who spearheaded growth and retention, among others have also left the company in the last

few months. Flipkart launched Shopsy in 2021 to compete in the low average selling price (ASP) categories with Meesho among

eply with Bollywood firms to invite Bollywood filmmakers to the Moscow cinema cluster. My colleagues from the Moscow Department of Culture who are responsible for attracting filmmakers are also trying to establish connections with Bollywood filmmakers."

Kozlov is also the chairman of the Moscow City Tourism Committee. Meanwhile, more Indian films are being screened across Russia. Besides Moscow and Saint Peters-

burg, Indian films are being screened in over 40 locations in the country including Arkhangelsk, Belgorod, Kazan, Penza, Saratov, Tula, Ulyanovsk, and Cheboksary.

Mirzoyan Karen Rudolfovich, a general producer of Indian films in Russia, said he is hoping Indian films will capture about 20% of the Russian films market in the next four to five years, up from less than said. "We have started working de- 5% now.

an films," said Rudolfovich, who has been working on Indian projects for the past eight years. "We work with production houses such as Red Chillies and Dharma

"Hollywood made a lot of invest-

ments in popularising their actors

in Russia. That's missing for Indi-

Productions, and our company purchases the rights of Indian films to screen them in Russia," he said. "I think the Russian audience will be able to relate more to the storyline of Indian films if more efforts are put here. We want to screen Indian films in more halls and theatres in Russia.' Abhishek Anand, a Russian lang-

uage translator and interpreter who also acted in a recent Indian film shot in Russia, said the older generation of Russians have a totally different emotion for Indians as they were very fond of actors such as Raj Kapoor

"But films such as Pathan, Pushpa, Bahubali and RRR have also done well here," he said.

HAVELLS

HAVELLS INDIA LIMITED

Regd. Off.: 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Corporate Off.: QRG Towers, 2D, Sector - 126

Expressway, Noida - 201 304

Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, web: www.havells.com Email: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

41ST AGM OF HAVELLS INDIA LIMITED TO BE HELD

THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/ OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS) Notice is hereby given that the 41st AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 28th June, 2024, Friday at 2:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022,11/2022 and 09/2023 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) permitting the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Integrated Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company/ Depository Participants.

However, the Shareholders of the Company may request physical copy of the Notice and Integrated Annual Report from the Company by sending a request at investors@havells.com in case they wish to obtain the same.

3. The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report will also be available on the Company's website www.havells.com in the Investors Section under Financials in the Annual Reports tab, the websites of the stock exchanges (NSE & BSE) and on the website of the NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) at

In case you have not registered your e-mail address and/ or not updated your bank account mandate for receipt of

 Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details, with their relevant depositories through their depository participants.

 Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribed

by SEBI, with the Company's Registrars and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058; Telephone: 011-41410592,93,011-49411000; Fax: 011-41410591; Email: delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in Relevant details and forms prescribed by SEBI in this regard including the mode of despatch are available on the website of the Company at https://havells.com/corporate/investors/shareholders-corner for information and use by the

Shareholders. You are requested to kindly take note of the same and update your particulars timely. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be available in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are

requested to visit www.havells.com for such details. 5. The Notice of 41st AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their email addresses

Pursuant to the amendments introduced in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act') vide Finance Act, 2020, w.e.f. April 1, 2020, dividend declared, paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020, is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct TDS/ WHT at the time of payment of dividend at the applicable tax rates. The rates of TDS/ WHT would depend upon the category and residential status of the shareholder. Members are requested to complete and/ or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants ('DPs') or in case shares are held in physical form, with the RTA/ Company by sending documents by 7st June, 2024, Friday. For the detailed process, please visit website of the Company and go through "Instructions on TDS for Dividend" at https://havells.com/media/wysiwyg/PDF/Disclosures/TDS-on-Dividend/ Final Dividend FY2023-24.pdf

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register and Share Transfer books of the Company will remain closed from 3rd June, 2024, Monday to 7th June, 2024, Friday (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 6.00 per Equity share of Re. 1/- each for the financial year ended March 31, 2024, as recommended by the Board, in its meeting held on 30th April, 2024.

For Havells India Limited Sanjay Kumar Gupta Company Secretary

Noida, May 25, 2024



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

NURTURING BRANDS

Standalone Highlights for the Quarter Ended 31st March, 2024







STANDALONE FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE QUARTER AND

YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ in Crores)

HIGHLIGHTS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Net Sales	1346.44	1428.50	4926.93	4908.99
EBITDA	148.76	120.88	587.11	549.13
Cash Profit Before Tax	145.40	116.43	568.73	535.87
Profit Before Tax	115.10	93.11	447.59	441.21
Profit After Tax	91.40	69.55	345.92	330.18
Cash Profit After Tax	121.70	92.87	467.06	424.84
EPS (diluted) - in ₹ per share (Face Value of ₹ 1/-)	1.99	1.52	7.54	7.20

Regd. Office: "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 054.

Ph.: +91 79 6155 6677, Fax: +91 79 6155 6678, Email: info@ambujagroup.com Website: www.ambujagroup.com

CIN: L15140GJ1991PLC016151

Note: This is not a statutory advertisement. For detailed financial results, please refer our website www.ambujagroup.com



. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की

उप-धारा (3) तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम

17 की उप-धारा (4) के अनुपालन में। मै नेक्सा मल्टीलेयर

बोर्ड्स एलएलपी (LLPIN-ABB-1053) जिसका

पंजीकृत कार्यालय 200ए, भूतल, ब्लॉक क्यू, डीडीए

फ्लैट्स, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 में है

एतदुद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उसकी

बोर्ड की बैठक तिथि 10 मई, 2024 के माध्यम से "दिल्ली

राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को

परिवर्तित करने का यह एलएलपी प्रस्ताव करता है। इस

प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित

होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके

पंजीकृत कार्यालय 200ए, भूतल, ब्लॉक क्यू, डीडीए

फ्लैट्स, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 मे

आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की

प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक

शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के

पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"

विद्यमान कम्पनियों के लिये लाइसैन्स के लिये

समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विजापन

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

30 के अनुपालन में]

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय.

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 8(1) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014

के नियम 20 के मामले में

सिद्ध काशी प्राईवेट लिमिटेड जिसका **पंजीकृत कार्यालय** ख

नं. 70/1/1, ए-8, 4था तल, ग्राम मंगोलपुर कलान, पंजाब स्वीट्स

तदद्वारा सर्व-साधारण को सचित किया जाता है कि कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी ने केन्द्र सरकार को आवेदन दिया है जो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लाइसैन्स

प्राप्त करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 18 अप्रैल.

2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार उसके नाम में ''लिमिटेड'' अथवा ''प्राईवेट लिमिटेड'

शब्द जोड़े बिना धारा 8 के अंतर्गत पंजीकत किये जाने के लिये

हित प्रभावित होता हो. वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकत

कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस

सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर संबंधित

कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110019 के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के

कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपर्न

ख. नं. 70/1/1, ए-8, 4था तल, ग्राम मंगोलपुर कलान,

पंजाब स्वीट्स के निकट, मार्बल मार्केट, रोहिणी, सेक्टर 5

कृत्ते एवं के लिये, सिद्ध काशी प्राईवेट लिमिटेड

पताः जे/71, कृष्ण विहार, नितारी सुल्तानपुरी

सी ब्लॉक, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110086

DIN: 08769710

आपत्ति जमा करें या जमा कराएें या पंजीकत डाक से भेजें:

उत्तर पश्चिम दिल्ली-110085, भारत

के निकट, मार्बल मार्केट, रोहिणी, सेक्टर 5, उत्तर पश्चिम दिल्ली

110085, भारत में है, के मामले में

इच्छुक है।

स्थान: दिल्ली

नेक्सा मल्टीलेयर बोर्डस एलएलर्प

हस्ता/- मयंक अगरवाल

पदनामित पार्टन

DPIN-07961214

या पंजीकृत डाक से भेजें:

तिथि: 14 मई, 2024

स्थानः नई दिल्ली



इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27. केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 CIN:L65922DL2005PLC136029

ई- मेल: homeloans@indiabulls.com., टेलि: 011-43532950, फैक्स: 011-43532947, वेबसाईट: http://www.indiabullshomeloans.com

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ पढा जाए, के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षों से या उससे अधिक भगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेयर निवेशक शिक्षा और संरंक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भूगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश के मूल्य को 16 अगस्त, 2024 को या उससे पहले दावा कर सकते है।

सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको का संपूर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट www.indiabullshomeloans.com पर उपलब्ध है।

सभी शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रुपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरों को अर्जित लाभ के साथ, यदी कोई हो तो, वह नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया दारा दावा कर सकते हैं।

शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमो के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के उदेश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे।

यदि 16 अगस्त, 2024 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरो और लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शुरू करेगी।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पूछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31- 32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 टॉल फ्री:1800-309-4001; ईमेल:einward.ris@kfintech.com, पर संपर्क कर सकते है।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 24.05.2024

कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

जिंदल सॉ लिमिटेड सीआईएन - L27104UP1984PLC023979 पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इडं , एरिया, नंद गांव रोड

कोसी कला. जिला मथरा (उ. प्र.) 281403 कॉर्पोरेट कार्यालयः जिंदल सेंटर, 12, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 088

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपन्नों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 18 जून, 2024 को सुबह 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो वीजवल मीन्स "ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस इलेक्टोंनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को मेजा गया हैं, जो 17 मई, 2024 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबलाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है। एजीएम की सचुना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सचुना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा नेरीक्षण के लिए इलेक्टोंनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छ्क सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई— मेल भेज सकते हैं ।

एजीएम में लागांश के मुगतान के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 12 जुन, 2024 से 18 जुन, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग: कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य यहां नीचे उल्लिखित तारीखों (''रिमोट ई-वोटिंग'') के मध्यम से दरस्थ रूप से अपना वोट ढाल सकते हैं। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल

सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया है। रजीएम की लुचना में निर्देश शामिल हैं जिसमें डीमैटरियलाइज्ड माध्यम, मौतिक माध्यम में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान सहित मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि (यहां नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर रखता है / सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड मूल गए हैं, उसे प्राप्त / उत्पन्न कर तकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रेमोट ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रेमोट ई—वोटिंग का प्रारंम 🤃 शनिवार 15 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) रिमोट ई—वोटिंग की समाप्ति 💠 सोमवार 17 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडवूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–योटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए मान्य होंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट—ऑफ तिथि, यानी 11 जुन, 2024 को सदस्यों के रिजरटर में दर्ज किया गया है वो केवल एजीएम में रिमोट ई–योटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य ई-वोटिंग के निर्देशों को एजीएम नोटिस में देख सकते हैं अधवा https://evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com कें डाउनलोड संक्शन में सदस्यों के लिएउपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए हस्ता/ सुनिल के जैन स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव तिथि : 24.05.2024 एफसीएस-3056

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792

दिनांक : 25-05-2024

स्थान : दिल्ली / राराक्षे

भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन प्रकाश" मण्डल कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ-226001 फोन नं: 0522-2624855 ईमेल : sales.lucknow@licindia.com

प्रतियोगिता पुरस्कार, मेमेण्टो व गिफ्ट आइटम की खरीद के लिए वेण्डर/फर्म/डीलर के इम्पैनलमेंट हेतू आवेदन की सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम लखनऊ मण्डल अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 19 शाखाओं हेतु प्रतियोगिता पुरस्कार, मेमेण्टो व गिफ्ट आइटम की खरीद के लिए वेण्डर / फर्म / डीलर से इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

दमीनलमेंट आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार होगा :-

1.	इम्पैनलमेंट आवेदन फीस	रू० 100+18%GST कुल 118.00
2.	आवेदन निर्गत तिथि	दिनांक 25.05.2024
3.	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि	दिनांक 13.06.2024 समय 03 बजे तक

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण, मण्डल कार्यालय के विक्रय विभाग से किसी भी कार्य दिवस में 25.05.2024 से 13.06.2024 तक रू0 118 / - देकर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निगम की वेब साइट www.licindia.in के Tender Section से प्राप्त की जा सकती है, जिसके साथ रू0 118/- का ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए। आवेदन सील बन्द लिफाफे में "क्रय समिति / कोटेशन ओपनिंग कमेटी", विक्रय विभाग, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय "जीवन प्रकाश" हजरतगंज, लखनऊ - 226001 को सम्बोधित करते हुए अन्तिम तिथि एवं समय तक पहुंच जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय लखनऊ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक

भारतीय डाक

India Post

संख्याः सी.पी.टी./डाकअदालत/नोटिफिकेशन/जून/2024/6 दिनांक, लखनऊ: 24.05.2024 कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उ.प्र. परिमण्डल, लखनऊ-226001

डाक अदालत डाक उपभोक्ताओं की शिकायतों को निराकरण करने हेत् दिनांक 21.06.2024 को 12.30 बजे चीफ पोस्टमास्टर जनरल उ०.प्र०. परिमण्डल की अध्यक्षता में डाक अदालत का

आयोजन किया जायेगा। डाक अदालत में उत्तर प्रदेश परिमण्डल की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों जैसे स्पीड पोस्ट, पार्सल, पंजीकृत पत्र, वी पी, धनादेष, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा आदि से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करके तत्काल निस्तारण करने का प्रयत्न

डाक विभाग की सेवाओं से असन्तुष्ट उपभोक्ता अपनी शिकायत दिनांक 19.06.2024 तक सहायक निदेशक (पी0जी0), कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उ०.प्र०. परिमण्डल. लखनऊ-226001 के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतें उक्त डाक अदालत में विचारणीय नहीं होगी। उक्त डाक अदालत में भाग लेने हेतु शिकायकर्ता को स्वयं उपस्थित होना होगा।

डाक अदालत में वहीं मामले विचारणीय होंगे जो पहले से परिमण्डल के पोस्टमास्टर जनरल/प्रवर अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर को प्रस्तुत किये गये हों और उनका निवारण न हुआ हो। ऐसे अधिकारियों के पास शिकायत भेजने अथवा डाक अदालत में मामला प्रस्तुत करने का प्रमाण साथ में संलग्न करना आवश्यक है।

लिफाफे के ऊपर '**'डाक अदालत हेतु'**' अवश्य लिखा जाए। हस्ता.

सहायक निदेशक (पी०जी० कते चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ-226001

संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड **पंजीकत कार्यालयः** 27 बीकेसी. सी–27. जी–ब्लॉक, बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मंबई महाराष्ट्र–400051

शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "एफआईएचएफसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (इसके बाद **"बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित लेनदार के रूप में जाना जाता है)** ने 28.02.2024 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि

बैंक ने ऋण खाता संख्या 611707210506925 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री मनोज कुमार और श्रीमती रजनी द्वारा लिया गया ऋण को 22-05-2024 तक बकाया रु.29,36,844 /- (रुपए उनतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चवालीस मात्र) की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है। विशेष

नीलामी की तिथि	28.06.2024		
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच		
आरक्षित मूल्य	20,00,000 / – (रुपये बीस लाख मात्र)		
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. 2,00,000 /— (केवल दो लाख रुपये)		
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27.06.2024 सायं 6:00 बजे तक (आईएसटी)		
सुरक्षित संपत्ति का विवरण	गांव, रावली महदूद, परगना ज्वालापुर तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित संपत्ति घर पूर्व 35 फीट, पिश्चम 35 फीट, उत्तर 20 फीट, दिक्षण 20 फीट कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट यानी 65 वर्ग मीटर, जिसमें 4 कमरे, भूतल पर 2 शौचालय बाथरूम सीढ़ियां और 5 कमरे, पहली मंजिल पर 2 शौचालय बाथरूम, इसका कुल कवर्ड क्षेत्रफल 1400 वर्ग फुट है, जिसका खसरा नंबर 466 है, अंसप संपत्ति घर का वह टुकडा और अंश, सीमाएं: पुर्वः दुसरे व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिमः दुसरे व्यक्ति का प्लॉट,		

उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः दूसरे व्यक्ति की जमीन उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा ८ के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं।

बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, **बोलीदाता श्री राहल राजन**

(+91 8745077693) श्री अक्षित सोलंकी (91 7302111608), और श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402)से संपर्क कर सकते

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bankauctions.html देखें

स्थानः हरिद्वार, उत्तराखंड दिनांकः 25.05.2024 प्राधिकृत अधिकारी ,कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड **HAVELLS**

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस. नई दिल्ली-110 001 कॉर्पोरेट ऑफिसः क्युआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126.

फोनः # 0120-3331000, फैक्सः # 0120-3332000, वेबः www.havells.com ई—मेलः investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की 41वीं एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) / ओएवीएम (अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यम)

एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304,

1. एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक (वार्षिक आम बैठक) 28 जुन, 2024, शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21 / 2021, 03 / 2022, 10 / 2022, 11 / 2022 और 09 / 2023 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) 🖊 अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से (एमसीए), मारल सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन—देन करने के लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति

 उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं / कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास उपलब्ध हैं। हालांकि, कंपनी के शेयरधारक नोटिस की भौतिक प्रति और कंपनी से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुरोध कर सकते हैं, यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो investors@havells.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

 एजीएम की सुचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.havells.com वार्षिक रिपोर्ट टैब में वित्तीय के अंतर्गत निवेशक संबंध अनुमाग में, स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) की वेबसाइटों और एनएसडीएल की वेबसाइट (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

लामांश प्राप्त करने के लिए यदि आपने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और / या अपना बैंक खाता मैंडेट अपडेट नहीं किया है, अभौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि लाभांश प्राप्त करने के लिए वे अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और / या अन्य विवरण, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि लाभांश प्राप्त करने के लिए वे अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और / या अन्य विवरण फॉर्म आईएसआर—1 और सेबी द्वारा निर्धारित अन्य संबंधित फॉर्म में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर के साथ प्रस्तुत करें। एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058; टेलीफोन: 011-41410592,93, 011-49411000; फैक्स 011-41410591; ईमेल: delhi@linkintime.co.in; येबसाइट:

प्रेषण के तरीके सहित इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवरण और प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट https:// havells.com/corporate/investors/shareholders-corner पर शेयरघारको द्वारा उपयोग और जानकारी के लिए उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और समय पर अपने विवरण अपडेट करें।

 शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट दूरस्थ रूप से ढालने का अवसर होगा। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका शेयरधारकों को नोटिस में प्रदान किया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस तरह के विवरण के लिए www.havells.com पर जाएं।

41वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को उनके ई—मेल पते पर लागू कानुनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी जाएगी।

 वित्त अधिनियम, 2020 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में पेश किए गए संशोधनों के अनुसार, प्रभावी, १ अप्रैल, २०२० को या १ अप्रैल, २०२० के बाद किसी कंपनी द्वारा घोषित, भगतान या वितरित लामांश, शेयरघारकों के हाथाँ में कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को लागू कर दरों पर लामांश के भुगतान के समय टीडीएस/डब्ल्यूएचटी की कटौती करनी होगी। टीडीएस/डब्ल्युएचटी की दरें शेयरघारक की श्रेणी और आवासीय स्थिति पर निर्भर करेंगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अघिनियम के अनुसार अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी"), आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा करें और / या अपडेट करें। यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आरटीए/कंपनी को 7 जून, 2024, शुक्रवार तक अपने दस्तावेज भेजें। विस्तृत प्रक्रिया के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट देखें और https://havells.com/media/wysiwyg/PDF/Disclosures/TDS-on-Dividend/Final_ Dividend FY2023-24.pdf पर "लामांश के लिए टीडीएस पर निर्देश" देखें।

एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 और संबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 3 जून, 2024, सोमवार से 7 जून, 2024, शुक्रवार (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी, इस दौरान 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1 रु. के इविवटी शेयरों पर प्रति शेयर 6.00 रुपये के अंतिम लागांश के भगतान की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हस्ता /-संजय कुमार गुप्ता

कंपनी सचिव

नोएडा. 25 मई. 2024

YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED Regd. Office: JA 108 DLF Tower A NA Jasola District Centre South Delhi DL 110025 India

Corporate Office: HO-01, Sector-1 Greater Noida West Gautam Buddha Nagar UP 201306 India Website: www.yatharthhospitals.com Email: cs@yatharthhospitals.com CIN: L85110DL2008PLC174706

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Rs. in Million except Shares and EPS CONSOLIDATED STANDALONE Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended **Particulars** 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2024 Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Revenue from operations 1,055.93 971.27 4,197.91 3,715.14 1,777.53 1,437.92 6,705.47 5,202.93 2 Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV) 219.86 855.21 249.41 1,568.32 293.20 1,131.15 441.12 876.78 1,131.15 855,21 441.12 249.41 1,568.32 876.78 3 Profit / (loss) before tax (V-VI) 293.20 219.86 30.80 66.57 213.47 57.62 76.21 423.57 219.10 4 Total tax (VIII) 291.21 5 Net Profit/(loss) after tax (VII-VIII) 262.39 173,19 153.29 839.94 641.74 383.49 1,144.75 657.68 6 Total comprehensive income for the period (IX+X) (Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive 153.29 644.17 384.62 173.06 660.80 income for the period) 263.35 840.89 1,145.87 7 Earnings Per Share (Rs.10 each) 3.32 2.34 9.83 4.85 2.64 10.09 10.61 14.46

NOTES:-

Diluted

The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 23rd May ,2024.

3.32

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on the Company's website at www.yatharthhospitals.com/investors.

2.34

 The above results of the Company have been audited by the Statutory Auditors and they have issued an unqualified opinion on the same. Previous figures have been regrouped/ rearranged / reclassified, wherever necessary.

Date: 24.05.2024

For and on behalf of Yatharth Hospital & Trauma Care Sevices Ltd Dr. Ajay Kumar Tyagi Chairman and whole-time Director DIN:01792886

14.46

10.09



एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

10.61

9.83

4.85

2.64

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट 🛭 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना)

जबकि अघोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का संपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रवत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 6 0 दिवस के भीतर चकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060116781187 श्रीमती पुजा कुमारी झा (ऋणी), श्रीमती बच्ची देवी (सह-ऋणी)	12 जनवरी 2024 र 956777/- रु. नो लाख छपपन हजार सात सौ सतहत्तर मात्र 10 जनवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित केएच नं. 183, गांव-यूसुफपुर, चकसाहेबेरी, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 50 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं.: L9001060717177516 व L9001061124276457 व L9001061121157440 ओलम्पिया इलेक्ट्रोनिक्स - होम एप्लायंसेज जरिए प्रोपराईटर बलविन्दर सिंह, बलविन्दर सिंह (सह-ऋणी), श्रीमती सिमरन काँर (सह-ऋणी)	29 जनवरी 2024 र 4548377/- रु. पॅतालीस लाख अड्तालीस हजार तीन सौ सतहत्तर व र 294898/- रु. दो लाख चौरानव हजार आठ सौ अट्ठानबे मात्र व र 344861/- रु. तीन लाख चौवालीस हजार आठ सौ इकसठ मात्र 25 जनवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित दाहिनी ओर, ग्राउण्ड फ्लोर, बिना छत अधिकार के, सम्पत्ति नं. बी-42, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली, सीमाऐं: पूर्व-सड़क, पश्चिम-सर्विस लेन, उत्तर-ब्लॉक-6/30, दक्षिण-प्लॉट का भाग क्षेत्रफल 100 वर्ग गज	21 मई 2024
ऋण खाता सं.: L9001060123625121 किशन गुप्ता (ऋणी), जयपाल गुप्ता (सह-ऋणी)	13 फरवरी 2024 र 2314757/- ह. तेईस लाख चौदह हजार सात सौ सतावन मात्र 12 फरवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 578, माली एनक्लेव, गांव-लोनी, परगाना, तहसील व जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 150 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं:: L9001060113472516 दीपक गुप्ता (ऋणी), कुसुमपाल गुप्ता (सह-ऋणी), श्रीमती उमा गुप्ता (सह-ऋणी)	12 मार्च 2024 र 930688/- रु. नो लाख तीस हजार छ सौ अट्ठासी मात्र 11 मार्च 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खाता नं. 203, गाटा नं. 298, ग्राम-दुरियाई परगन, तहसील-दादरी, जिला-गौत्तम बुद्धा नगर, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 500 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं.: L9001060820710198 श्रीमती पुजा कुमारी झा (ऋणी), श्रीमती बच्ची देवी (सह-ऋणी), श्रीमती सुमन जी झा (सह-ऋणी)	12 जनवरी 2024 र 167342/- रु. एक लाख सड्सट हजार तीन साँ बयालीस मात्र 10 जनवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड, नगरपालिका लिमिट-बच्ची का प्लॉट, केएच नं. 183, भोले विकार में स्थित, यूसुफपुर, चकशाहबेरी, परगाना, दादिर, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-201009 क्षेत्रफल 50 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं.: L9001060127460999 श्रीमती मंजू ओमप्रकाश (ऋणी), वृजेश धीर सिंह (सह-ऋणी)	15 फरवरी 2024 ₹ 820806/- रु. आठ लाख बीस हजार आठ सौ छ मात्र 12 फरवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अधिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, विल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1476, नवीन मंडी स्थल गगन विहार कस्वा दादरी परगाना, जिला-गौत्तम बुद्धा नगर, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं: L9001060128075163 व १५ फरवरी 2024 L9001060831932903 १ 928176/- महीपाल सिंह (ऋणी), नितिन पांचाल (सह-ऋणी), कृष्णा पांचाल (सह-ऋणी) है 609662/- क. चे लाख अंदठाईस हजार एक सी छिहेत्तर मात्र व १ 609662/- क. छलाख नी हजार छ सी बासठ मात्र		सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित केएच नं. 357 एमआई, नासरपुर, परगाना लोनी, भाटिया रोड़, गाजियाबाद, गांव-लोनी, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 172 वर्ग गज	22 मई 2024
ऋण खाता सं:: L9001060118519892 व L9001061124293472 गुरूजी मोटर्स जरिए प्रोपराइंटर दीपक भारद्वाज (ऋणी), दीपक भारद्वाज (सह-ऋणी), श्रीमती पूजा (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 र 1819926/- फ. अठारह लाख उन्नीस हजार नो सौ छबबीस मात्र 12 फरवरी 2024 व 13 फरवरी 2024 र 460078/- फ. चार लाख साठ हजार अठहत्तर मात्र	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित मकान नं. 2एन/13, न्यू टाउनशिप, फरीदाबाद विद्या निकेतन स्कूल के पास, पार्क, एनआईटी गांव व तहसील-फरीदाबाद, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 82 वर्ग गज, सीमाऐं: पूर्व मकान नं. 2एन/16, पश्चिम 40 रोड़, उत्तर-मकान नं. 2एन/14, दक्षिण-25 फीट रास्ता	21 मई 2024

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अघोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अघिनियम की घारा 1 3 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रवत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड''(ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा। स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड

IDFC FIRST (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031 दुरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

> वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न-वर्णित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व** में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेंड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भूग्तेय धनराशियों की संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह—ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	14100825	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. महबूब अली 2. यासमीन महबूब अली	03.04.2024	7,53,384.67 / —	प्लॉट नंबर 49 भाग की भूमि पर निर्माण के साथ अचल फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 60 वर्ग गज अर्थात् 50.16 वर्ग मीटर, जो खसरा नंबर 392/4 मिन., लक्ष्मी गार्डन, ग्राम धरौती खुर्द, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व— अन्य संपत्ति, पश्चिम— अन्य संपत्ति उत्तर— 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण— प्लॉट काशेष भाग।
2.	14609988	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. राकेश सैनी (स्वर्गीय राजेंद्र लल्लू राम के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से)	08.05.2024	13,61,586.08 / —	150 वर्ग मीटर माप वाले भूमि क्षेत्र के समस्त वह भाग तथा अंश जो पुराने वार्ड नं. 6, नये वार्ड नं. 4, फर्रुखनगर, लाल डोरा आबादी, तहसील : फर्रुखनगर, जिला : गुरुग्राम, हरियाणा—123506 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— रास्ता 6 फुट चौड़ा और हीरा लाल की संपत्ति, पश्चिम— मुखराम की संपत्ति, उत्तर— सतीश की संपत्ति, दक्षिण— संतोष की संपत्ति।
3.	28886544 एवं 33926894	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. वीरवती नन्द किशोर 2. नंद किशोर	28.03.2024	9,69,899.35 / —	60 वर्ग गज माप वाले प्लॉट के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा नंबर 1726 से 1733, 1735, 1738 से 1743, 1845 से 1757, 1759, 1761 से 1769, 1773, 1774 में से, वाका मौजा बसेलवा कॉलोनी, तहसील और जिला : फरीदाबाद, हरियाणा — 121002 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— मकान नं. 308 (हरीश चंद), पश्चिम— मकान नं. 310 (नरेश), उत्तर— गली 12 फुट चौड़ी (गली नं. 07), दक्षिण— अन्य संपत्ति।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ** संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल**

फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुग्तेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त

वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य—विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13)

के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com

12 फरवरी 2024

ऋणियों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 24-मई-2024